

  
सत्यमेव जयते  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 155]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1977, चैत्र 9, 1899

No. 155]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1977/CHAITRA 9, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

**DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING**

(Banking Wing)

**NOTIFICATIONS**

*New Delhi, the 28th March 1977*

**S.O. 273(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government being requested so to do by the State Bank of India, establishes, with effect from the 30th March, 1977, a Regional Rural Bank in the State of Bihar under the name of Santhal Parganas Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the district of Santhal Parganas in the State of Bihar.

[No. F.4-134/76-AC(I)]

**राजस्व और बैंकिंग विभाग**

(बैंकिंग पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1977

का० प्रा० 273(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार,

(I399)

भारतीय स्टेट बैंक के अनुरोध पर 30 मार्च, 1977 से बिहार राज्य में 'संथाल परगना ग्रामीण बैंक' नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है। यह बैंक बिहार राज्य के संथाल परगना जिले की स्थानीय सीमाओं में अपना कारोबार करेगा।

[सं० एफ० 4-134/76-ए० सी० (1)]

S.O. 274(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and the State Bank of India, by which Santhal Parganas Gramin Bank has been sponsored, specifies Dumka as the place where Santhal Parganas Gramin Bank shall have its Head Office.

[No. F 4-134/76-AC(II)]

क्र० प्र० 274(प्र) — प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा संथाल परगना ग्रामीण बैंक के प्रायोजक भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से डुमका को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर संथाल परगना ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[सं० एफ० 4-134/76-ए० सी० (2)]

New Delhi, the 30th March 1977

S.O. 275 (E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Santhal Parganas Gramin Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F 4-134/76-AC(III)]

K. P. A. MENON, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1977

क्र० प्र० 275 (प्र) — भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा संथाल परगना बैंक को उक्त उप-खण्ड के प्रयोजन के लिये प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं० एफ० 4-134/76-ए० सी० (3)]

के० पि० ए० मेनन, अपर सचिव।

### RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

Bombay, the 30th March 1977

S.O. 276(E).—In pursuance of clause of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the second Schedule to the said Act of the following bank namely,—

Santhal Parganas Gramin Bank, Dumka.

[DBOD No 153/INCL/C102-77]

J. C. LUTHER, Dy. Governor.

## भारतीय रिजर्व बैंक

(बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग)

बम्बई, 30 मार्च, 1977

क्रा० आ० 276 'अ',—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा यह निवेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात् :—

संथाल परगना ग्रामीण बैंक, हुमना ।

[डी० प्री० ओ० डी० सं० 153 आई एन सी एल सी 102-77]

जे सी० सुथर, उप-गवर्नर ।

